



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 311] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 16, 1977 आषाढ़ 25, 1899
No 311] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 16 1977/ASADHA 25, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July 1977

S.O. 564(E).—The following notification made by the Vice-President acting as President of India on the 16th July, 1977 is published for general information :—

In exercise of the powers conferred by clause (n) of article 371F of the Constitution, the Vice-President acting as President hereby extends to the State of Sikkim, with immediate effect, the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), subject to the modification that any reference in the said Act to a law not in force, or to a functionary not in existence, in the State of Sikkim shall be construed as a reference to the corresponding law in force, or to the corresponding functionary in existence, in that State.

Provided that if any question arises as to who such corresponding functionary is, or if there is no such corresponding functionary, the Central Government shall decide as to who such functionary will be and the decision of the Central Government shall be final.

B. D. JATTI,
Vice-President acting as President

[No. F. 11013/9/77-SKM]

M L KAMPANI, Jt Secy

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1977

का० आ० 564 (अ) — भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा 16 जुलाई, 1977 को की गई निम्नलिखित अधिसूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है —

राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उप-राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 371 च के खण्ड (३) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) का विस्तार सिक्किम राज्य पर तत्काल प्रभावी रूप में इस उपान्तरण के अधीन करने है कि उक्त अधिनियमिति में, सिक्किम राज्य में ऐसी विधि, जो प्रवृत्त नहीं है, के प्रति निर्देश का अधिनियम उस राज्य की तत्समान प्रवृत्त या तत्समान विद्यमान कृत्यकारी के प्रति निर्देश के रूप में किया जाएगा।

परन्तु यदि ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसा तत्समान कृत्यकारी कौन है या यदि ऐसा तत्समान कृत्यकारी नहीं है, तो केन्द्रीय सरकार यह विनिश्चित करेगी कि ऐसा कृत्यकारी कौन होगा और केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

ब० दा० जत्ती,

राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उप-राष्ट्रपति।

[स० फा०-11013/97-सिक्किम

एम० एल० कम्पानी, संयुक्त सचिव।

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July 1977.

S.O. 565(E).—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), the Central Government, after consulting the Election Commission, hereby directs that the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1974, shall extend to, and come into force in, the State of Sikkim with effect on and from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[No. F.7(29)/77-Leg. II]

E. VENKATESWARAN, Jr. Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1977

का० आ० 565 (अ) — केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, यह निर्देश देती है कि राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति निर्वाचन नियम, 1974 का, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को और से, विस्तार सिक्किम राज्य पर होगा और वे वहा प्रवृत्त होंगे।

[स० फा० 7 (29)/77-विधायी II]

ई० वेंकटेश्वरन, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा

मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977